



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1983/माघ 19, 1904

No. 60]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1983/MAGHA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1983

का०आ० 97(अ)/18कक/आई डी आर ए/83 :- भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 83(अ)/18कक/आई डी आर ए/78 तारीख 9 फरवरी, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मेसर्स प्रभुराम मिल्स लिमिटेड चेंगनपुर, केरल नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 8 फरवरी, 1983 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और केरल स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त उपक्रम 8 अगस्त, 1983 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए केरल स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध के अधीन बना रहना चाहिए;

1301 GI/82

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 8 अगस्त, 1983 तक की जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फाइल सं० 3(18)/77-सी यू सी]

ए०पी० सरकार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th February, 1983

S.O. 97(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 83(E)/18AA/IDRA/78 dated the 9th February, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Prabhuram Mills Limited, Changanpur, Kerals, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and in-

clusive of the 8th February, 1983, and the Kerala State Textile Corporation Limited was authorised to take-over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Kerala State Textile Corporation Limited for further period of six months upto and inclusive of the 8th August, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th August, 1983

[File No. 3(18)/77-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.